

(4)

Code No. : B-336

Roll No.....

Total No. of Sections : 03

Total No. of Printed Pages : 04

OR

आन्तरिक लाभांश एवं पूंजीगत लाभ की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए।

Give a comparative account of Interim Dividend and Capital Profit.

प्रश्न 4. "अंकेक्षण मुख्यतः अनुसंधान नहीं है" क्यों? अनुसंधान प्रक्रिया की मुख्य बातें बताइये।

"Auditing is not essentially an Investigation" why? Indicate in broad lines the procedures for Investigation.

OR

एक ऋणदाता की ओर से आप किस प्रकार अनुसंधान करेंगे? समझाइए।

How Would you investigate on behalf of a prospective lender? Explain.

प्रश्न 5. प्रबंध अंकेक्षण क्या है? इसके उद्देश्यों एवं महत्व का वर्णन कीजिए।

What is Management Audit? Discuss its objects and importance.

OR

लागत अंकेक्षण क्या है? यह वित्तीय अंकेक्षण के किस प्रकार भिन्न है?

What is cost Audit? How does it differ from financial Audit?

---X---

Code No. : B-336

Annual Examination - 2019

B.Com. Part - III

AUDITING

Max.Marks : 75

Time : 3 Hrs.

Min.Marks : 25

विभाग I [k.M ^v* e: n l vfry?kŷkj h i: 'u g] ftUg: gy djuk vfuok; l gA [k.M ^c* e: y?kŷkj h ç'u ,o [k.M ^l* e: nh?k mŷkj h ç'u gA [k.M ^v* dk lcl i gy: gy djA

Note : Section 'A', containing 10 very short-answer-type questions, is compulsory. Section 'B' consists of short-answer-type questions and Section 'C' consists of long-answer-type questions. Section 'A' has to be solved first.

Section - 'A'

fuEukfdr vfry?kŷkj h ç'uk di mŷkj ,d ;k nk okD; k e: nA
Answer the following very short-answer-type questions in one or two sentences. (1x10=10)

प्रश्न 1. दोहरी लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ था?
 When the Double Entry System was invented?

प्रश्न 2. अंकेक्षण के क्या क्षेत्र हैं?
 What are the scope of Auditing?

प्रश्न 3. आंतरिक अंकेक्षण के लाभों को बताइये।
 Discuss the advantages of Internal Audit.

प्रश्न 4. अंकेक्षण प्रमाणन का सार है। (सत्य या असत्य)
 Audit is the essence of vouching. (True or false)

प्रश्न 5. विभाज्य लाभ क्या है?
 What is divisible profit?

प्रश्न 6. अधिलाभांश को परिभाषित कीजिए।
 Define Bonus.

P.T.O.

(2)

Code No. : B-336

प्रश्न 7. नये साझेदार की ओर से अनुसंधान कैसे होता है?

How Investigation is done on behalf of a New Partner?

प्रश्न 8. अनुसंधान क्या है?

What is Investigation?

प्रश्न 9. सामाजिक अंकेक्षण किसे कहते हैं?

What is meant by Social Audit?

प्रश्न 10. श्रम का अंकेक्षण कैसे किया जाता है?

How labour Audit is done?

Section - 'B'

fuEukfdr y?k mYkj; ç'uk dī mYkj 150&200 'kOn lhek e nī
Answer the following short-answer-type questions with word limit 150-200 (5x5=25)

प्रश्न 1. एक सफल अंकेक्षण के आवश्यक गुणों को संक्षेप में समझाइये।

State briefly the essential qualities of a Successful Auditor.

OR

अंकेक्षण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन करें।

What are the different types of Audit? Describe each of them in brief.

प्रश्न 2. आन्तरिक निरीक्षण के क्या उद्देश्य हैं? समझाइए।

What are the objectives of Internal Check? Explain.

OR

रोकड़ पुस्तक का प्रमाणन आप किस प्रकार से करेंगे? समझाइए।

How would you vouch the cash book? Explain.

प्रश्न 3. एक कम्पनी के अंकेक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? वर्णन कीजिए।

How the Auditors of a company are appointed? Describe.

OR

विभाज्य योग्य लाभ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

Write short note on divisible profit.

प्रश्न 4. अनुसंधान के विभिन्न प्रकार बताइये।

Write different kinds of Investigation.

(3)

Code No. : B-336

OR

अनुसंधान क्यों किया जाता है? समझाइए।

Why is Investigation conducted? Explain.

प्रश्न 5. प्रबंध अंकेक्षण एवं लागत अंकेक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Differentiate Management Audit and Cost Audit.

OR

सामाजिक अंकेक्षण एवं कर अंकेक्षण पर टिप्पणी लिखिए।

Write notes on Social audit and Tax audit.

Section - 'C'

fuEukfdr nh?k mYkj; ç'uk dī mYkj 300&350 'kOn lhek e nī
Answer the following long-answer-type questions with word limit 300-350 (8x5=40)

प्रश्न 1. "जहाँ लेखाकर्म प्रारम्भ होता है वहाँ पूस्तपालन समाप्त होता है और अंकेक्षण वहीं प्रारम्भ होता है जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है" इस कथन की व्याख्या कीजिए।

"Where Book-Keeping ends, Accountancy begins and where Accountancy ends, Auditing begins." Explain this Statement.

OR

अंकेक्षण क्या है? इसके प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए।

What is Auditing? Describe its important merits.

प्रश्न 2. आन्तरिक निरीक्षण क्या है? इसके उद्देश्य एवम् गुण-दोषों को बताइये।

What are Internal Check? Explain its objects, merits and demerits.

OR

प्रमाणन से आप क्या समझते हैं? विक्रय पुस्तक का प्रमाणन आप किस प्रकार करेंगे?

What do you understand by vouching? How would you vouch the Sales Book?

प्रश्न 3. "एक अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं" इस कथन को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अंकेक्षक के कर्तव्य बताइये।
"An auditor is a watch dog and Not a blood hound". In the light of this statement discuss the duties of a company auditor.

P.T.O.